

पत्रांकः जी.एस.टी./2018-19/ 53/1819059/02.11.2018 /वाणिज्य कर
कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊः दिनांक: 31 अक्टूबर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)/(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आकस्मिक कराधेय व्यक्ति से संबंधित विषयों तथा इनपुट सर्विस डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा वितरित अधिक इनपुट कर प्रत्यय की रिकवरी के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु :-

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सेस एण्ड कस्टम द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आकस्मिक कराधेय व्यक्ति से संबंधित विषयों तथा इनपुट सर्विस डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा वितरित अधिक इनपुट कर प्रत्यय की रिकवरी के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु Circular NO-71/45/2018-GST दिनांक 26.10.2018 को जारी किया गया है।

उक्त परिपत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों को भी अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

F. No. 349/94/2017-GST
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs
GST Policy Wing

New Delhi, Dated the October, 2018

To,

The Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners/Principal Commissioners/
Commissioners of Central Tax (All)/

The Principal Directors General/ Directors General (All)

Madam/Sir,

Subject: Clarifications of issues under GST related to casual taxable person and recovery of excess Input Tax Credit distributed by an Input Service distributor – Reg.

Representations have been received seeking clarification on certain issues under the GST laws. The same have been examined and the clarifications on the same are as below:

| S. No | Issue | Clarification |
|-------|---|---|
| 1 | Whether the amount required to be deposited as advance tax while taking registration as a casual taxable person (CTP) should be 100% of the estimated gross tax liability or the estimated tax liability payable in cash should be calculated after deducting the due eligible ITC which might be available to CTP? | <p>1. It has been noted that while applying for registration as a casual taxable person, the FORM GST REG-1 (S. No. 11) seeks information regarding the <i>“estimated net tax liability”</i> only and not the gross tax liability.</p> <p>2. It is accordingly clarified that the amount of advance tax which a casual taxable person is required to deposit while obtaining registration should be calculated after considering the due eligible ITC which might be available to such taxable person.</p> |

